

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अगस्त 2019 — भाद्रपद 6, शक 1941

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक 08/चार/वि.स. उपनिर्वा./2019/7149. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 100/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./6/2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 आयोग द्वारा छ.ग. राज्य के विधानसभा क्षेत्र 88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) के लिये विधानसभा उप निर्वाचन-2019 निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(समीर विश्नोई)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 28 अगस्त, 2019 — 6 भाद्रपद, 1941 (शक)

**अधिसूचना**

सं. 100/पूर्व अनु0-1/छ.ग.-वि.स./06/2019 :- यतः छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा में 88-दन्तेवाडा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री भीमा मण्डावी के आकस्मिक निधन हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 9 अप्रैल, 2019 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (2) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य से उक्त 88-दन्तेवाडा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्विना बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 29 सितम्बर, 2019 (बुधवार) से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले, एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	4 सितम्बर, 2019 (बुधवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	5 सितम्बर, 2019 (बृहस्पतिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	7 सितम्बर, 2019 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	23 सितम्बर, 2019 (सोमवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	29 सितम्बर, 2019 (रविवार)

नियत करता है; और

- (इ) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi

New Delhi, Dated 28th August, 2019— 6 Bhadrapada, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

**No.100/ES-1/CG-LA/6/2019 :- WHEREAS, the seat of Sh. Bhima Mandavi in the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh, elected from 88-Dantewada (ST) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 9<sup>th</sup> April, 2019 due to the sudden demise of Shri Bhima Mandavi; and**

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;**
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (2) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-**

**(A) calls upon the said 88-Dantewada (ST) Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh, to elect, before 29<sup>th</sup> September, 2019 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;**

**(B) appoints, with respect to the said election:-**

- a. the 4<sup>th</sup> September, 2019 (Wednesday), as the last date for making nominations;**
- b. the 5<sup>th</sup> September, 2019 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;**
- c. the 7<sup>th</sup> September, 2019 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;**
- d. the 23<sup>rd</sup> September, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and**
- e. the 29<sup>th</sup> September, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and**

**(C) fixes the hours from 7:00 A.M to 3.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.**

By order,

Sd/-  
(Narendra N. Butolia)  
Principal Secretary.